

मनोविज्ञान
(बी.ए.जी.)

सत्रीय कार्य
(जुलाई 2022—जनवरी 2023)

बी.पी.सी.एस 186: तनाव प्रबंधन

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विष्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

प्रिय शिक्षार्थी,

जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम दर्शिका में सूचित किया है कि इग्नू में मूल्यांकन दो भागों में होता है: i) सत्रीय कार्य द्वारा सतत मूल्यांकन, और ii) सत्रांत परीक्षा। अंतिम परीक्षा परिणाम में, सभी सत्रीय कार्यों के लिए 30 प्रतिशत अंक तथा सत्रांत परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत अंक निर्धारित है।

बी.पी.सी.एस 186, 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। आपको इस पाठ्यक्रम के लिए दो सत्रीय कार्य करने होंगे।

सत्रीय कार्य 1 में वर्णनात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर निबंध के समान, प्रस्तावना एवं निष्कर्ष के साथ लिखने होंगे। इनका प्रयोजन विषय से संबंधित आपकी समझ एवं जानकारी को व्यवस्थित, संगत तथा सुस्पष्ट तरीके से वर्णन करने की योग्यता को जांचना है।

सत्रीय कार्य 2 में लघु श्रेणी के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको सर्व प्रथम तर्क और स्पष्टीकरण के संदर्भ में विषय का विश्लेषण करना होगा जिसके उपरान्त प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तरीके से लिखने होंगे। ये प्रश्न विषय से संबंधित अवधारणाओं व प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए हैं। सत्रीय कार्य करने से पहले, कार्यक्रम दर्शिका में दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह अनिवार्य है कि आप सत्रीय कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें।

आपका उत्तर किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित शब्द—सीमा की अनुमानित सीमा के भीतर होना चाहिए। याद रखिये कि इन सत्रीय प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा, तथा आप सत्रांत परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। पुरा किया गया सत्रीय कार्य 'अपने अध्ययन केंद्र' के संचालक के पास निम्नलिखित समय—सारणी के अनुसार जमा कराएँ:

जुलाई 2022 चक्र के विद्यार्थियों के लिए: 30.04.2023

जनवरी 2023 चक्र के विद्यार्थियों के लिए: 31.10.2023

*आपको सारे सत्रीय कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्दर जमा करने होंगे, जिससे आप सत्रांत परीक्षा दे सके।

जमा कराये गये सत्रीय कार्यों की अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य प्राप्त करें, तथा उसे संभाल कर रखिये। सत्रीय कार्य की एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखें। मूल्यांकन के पश्चात, अध्ययन केंद्र सत्रीय कार्यों को आपको लौटा देगा। पूर्ण किये हुए सत्रीय कार्य आपको प्रेषित किये गये अध्ययन केंद्र के संचालक को ही भेजने होंगे।

सत्रीय कार्य लिखने से पहले नीचे दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक अनुकरण करें:

1. आपके लिए नीचे दिए गये तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करना उपयोगी साबित होगा।

क) **योजना:** सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए। सत्रीय कार्य के प्रश्न जिन इकाइयों पर आधारित हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लें, और फिर उन्हें तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर लें।

ख) **संगठन:** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा बनाने से पहले कुछ बेहतर तथ्यों का चुनाव और विश्लेषण कीजिए। उत्तर की प्रस्तावना और निष्कर्ष पर विशेष ध्यान दें। उत्तर लिखने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :

— आपका उत्तर तर्कसंगत और सुसंगत है;

— वाक्यों और अनुच्छेदों में स्पष्ट सबंध है; तथा

— उत्तर आपके भाव, शैली और प्रस्तुति के आधार पर सही है।

ग) **प्रस्तुतीकरण:** जब आप अपने उत्तर से सतुर्प्त हो जाएँ तो जमा कराने के लिए सत्रीय कार्यों के प्रश्नों के उत्तर की स्वच्छ प्रति तैयार करें। उत्तर साफ—साफ और अपनी हस्तालिपि में लिखना अनिवार्य है। जिन बिंदुओं पर आप जोर देना चाहते हों, उन्हें रेखांकित कर दें। यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द—सीमा के भीतर ही होना चाहिए।

2. अपने उत्तर लिखने के लिए A4 आकर का कागज प्रयोग करें और सभी पृष्ठ को ध्यान पूर्वक टैग करें। बायीं ओर 4 सेमी का हाशिया और दो उत्तरों के बीच कुछ जगह छोड़ें। उपयुक्त जगहों पर छोड़े गये हाशिया में उपयुक्त टिप्पणी करने के लिए अवलोकनकर्ता की सुविधा होगी।

3. उत्तर आपकी स्वयं की लिखावट में होनी चाहिए। अपने उत्तरों को टाइप या प्रिंट न करें। विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये अध्ययन सामग्री से अपने उत्तर की नकल न करें। अगर आप अध्ययन सामग्री से नकल करते हैं तो आपको शून्य अंक मिलेंगे।
4. आपको सत्रीय कार्य (प्रज्ञ) सत्रीय कार्य (आपके द्वारा लिखा गया) के साथ इसे जमा करने से पहले संलग्न करनी होगी।
5. अगर आपने अध्ययन केन्द्र परिवर्तित के लिए निवेदन किया हुआ है, तो आपको सत्रीय कार्य, मूल अध्ययन केन्द्र में ही जमा करना चाहिए जब तक कि आपको विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र के बदलने की सूचना ना मिल जाये।
6. अगर आपको अपने सत्रीय कार्य के मूल्यांकन के पश्चात् काइ‘ वास्तविक त्रुटि मिलती है जैसे सत्रीय कार्य का कोई हिस्सा का मूल्यांकन नहीं हुआ हो या कुल अंक जो संत्रीय कार्य पर गलत अंकित है, आदि। ऐसी त्रुटियों के सुधार के लिए और मुख्यालय में सही अंकों को भेजने के लिए, अपने अध्ययन केन्द्र के संचालक से संपर्क करें।
शुभकामनाओं के साथ

मनोविज्ञान सकांय,
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ,
इण्ठू नई दिल्ली

तनाव प्रबंधन (बीपीसीएस 186) सत्रीय कार्य (टी एम ए)

पाठ्यक्रम कोड: बीपीसीएस 186
सत्रीय कार्य कोड: सत्रीय / टीएमए/ जुलाई 2022—जनवरी 2023
कुल अंक: 100

नोट: सभी सत्रीय कार्य अनिवार्य है।

अनुदेश

- शीर्षक पृष्ठ होना चाहिए। इसमें इन विवरणों को शामिल करें: नाम, एनरोलमेंट नंबर, ईमेल, क्षेत्रिय केंद्र, अध्यायन केंद्र, कार्यक्रम का शीर्षक और कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक और कोड।
- A4 आकर का कागज उपयोग कीजिए।
- तालिका बनाने के लिए कोरा कागज का उपयोग कीजिए और तालिक और आलेख को पेन्सिल से खीचिए।
- आपके उत्तर अपने शब्दों में होने चाहिए।
- सत्रीय कार्य हस्तालिखित होना चाहिए।

सत्रीय कार्य I

नोट: निम्नलिखित प्रत्येक प्रज्ञ के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रज्ञ 20 अंक का हैं।

$$3 \times 20 = 60$$

- उचित चित्र की सहायता से तनाव के प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए।
- प्रदर्शन एवं उत्पादकता पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
- सामना करने (कोपिंग) की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और सामना करने (कोपिंग) की शैलियों का वर्णन कीजिए।

सत्रीय कार्य II

निम्नलिखित प्रत्येक प्रज्ञ के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रज्ञ 5 अंक का हैं।

$$8 \times 5 = 40$$

- उचित उदाहरणों की सहायता से तनाव के स्रोतों की व्याख्या कीजिए।
- तनाव की प्रवणता में योगदान करने वाले कारक के रूप में पूर्णतावाद का वर्णन कीजिए।

6. जैकबसन प्रगतिशील मांसपेशीय विश्रांति की व्याख्या कीजिए।
7. तनाव प्रबंधन की तकनीक के रूप में योग का वर्णन कीजिए।
8. उचित उदाहरण की सहायता से एबीसीडीई (ABCDE) तकनीक पर चर्चा कीजिए।
9. समय प्रबंधन की तकनीकों का वर्णन कीजिए।
10. अंतर्वैयक्तिक कौशल के रूप में प्रभावी संचार की व्याख्या कीजिए।
11. जोहरी खिड़की की व्याख्या कीजिए।